



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 फाल्गुन 1946 (श10)
(सं0 पटना 190) पटना, बुधवार, 12 मार्च 2025

श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)

पदस्थापन आदेश
11 मार्च 2025

सं० 5/आर०एल०-40-150/2024 श्र०सं०-1287—बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-7ए/सं.प्र. (मु.)प-01-04/2023(32) लो.से.आ./गो. दिनांक-23.12.2024 के आलोक में आयोग द्वारा आयोजित 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पद पर नियुक्त मुख्यालय में प्रतीक्षारत श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को अगले आदेश तक स्तंभ-5 में अंकित पदों पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०सं०	श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	मुख्य परीक्षा का अनुक्रमांक	नव पदस्थापन
1	2	3	4	5
01	सुश्री शोभा कुमारी	सिवान	120463	फुलवरिया, गोपालगंज
02	श्री देव प्रिय	मुंगेर	232287	बछवाड़ा, बेगूसराय

2. उक्त पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि तुरन्त अपने नव पदस्थापन के पद का प्रभार ग्रहण करेंगे तथा इसकी सूचना उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त/श्रम अधीक्षक को देंगे।

3. उक्त पदाधिकारियों के मुख्यालय में योगदान देने की तिथि से संबंधित कार्यालय में योगदान देने की तिथि तक की अवधि को विनियमित किया जाता है। इस अवधि के वेतनादि का भुगतान संबंधित कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्तर से किया जाएगा।

4. सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं०-2082, दिनांक 01.04.2003 के अनुपालन में प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है।

5. जो अभ्यर्थी पूर्व से कहीं कार्यरत हैं, उनके वर्तमान नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन-पत्र प्रस्तुत करने पर ही योगदान स्वीकृत किया जाएगा।

6. सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि संबंधित अभ्यर्थियों से यह सुनिश्चित कर लें कि पूर्व में उनके द्वारा मुख्यालय में योगदान के समय वांछित दस्तावेज उपलब्ध करा दिया गया था। इसके उपरान्त ही उनके वेतनादि का भुगतान किया जाय।

आदेश से,
राजेश भारती,
श्रमायुक्त।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 190-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>